

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्रा

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. 6178-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) को उससे संबद्ध उद्देश्यों और कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाते हैं.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०१०

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) विधेयक, २०१०.

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०१० है.

वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के लिए राज्य की संचित निधि में से ५,८९,५८,३६,५५,००० रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग अट्ठावन हजार नौ सौ अट्ठावन करोड़ छत्तीस लाख पचपन हजार रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के दौरान दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान संख्यांक	(२) सेवार्यें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये	
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	५०,५१,८२,८१,०००	५०,५१,८२,८१,०००
	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	५९,२२,००,६७,०००	५९,२२,००,६७,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	१,८३,४१,९३,०००	१३,१७,०९,०००	१,९६,५९,०२,०००
		पूंजी	८,५५,००,०००	०	८,५५,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	४०,०७,६३,०००	२,०००	४०,०७,६५,०००
		पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०३.	पुलिस	राजस्व १८,६३,७६,०७,००० पूंजी २८,२१,६३,०००	७१,००,००० ०	१८,६४,४७,०७,००० २८,२१,६३,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व १५,३९,११,००० पूंजी ३२,०१,०००	५,०१,००० ०	१५,४४,१२,००० ३२,०१,०००
०५.	जेल	राजस्व १,३३,२१,३१,०००	५०,०००	१,३३,२१,८१,०००
०६.	वित्त	राजस्व ४३,०८,५५,४४,००० पूंजी १,०६,७८,०२,०००	१२,७३,३४,००० ०	४३,२१,२८,७८,००० १,०६,७८,०२,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व ११,९६,१८,४६,०००	१,३०,०६,५०,०००	१३,२६,२४,९६,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व ६,०८,५४,४१,००० पूंजी १७,८३,२०,०००	४,९३,००,००० ०	६,१३,४७,४१,००० १७,८३,२०,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व ३७,०७,१५,००० पूंजी ४५,००,०००	१,५०,००० ०	३७,०८,६५,००० ४५,००,०००
१०.	वन	राजस्व ९,९७,२५,३६,००० पूंजी २६,००,०१,०००	१०,२७,००,००० ०	१०,०७,५२,३६,००० २६,००,०१,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व १,४७,१७,०७,००० पूंजी १,१९,१५,७९,०००	४,५०,००० १०,००,०००	१,४७,२१,५७,००० १,१९,२५,७९,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व १५,३२,२०,५७,००० पूंजी १२,३६,०४,२४,०००	५,६७,००,००,००० ०	२०,९९,२०,५७,००० १२,३६,०४,२४,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व ६,२४,१८,६२,०००	१३,००,०००	६,२४,३१,६२,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
१४.	पशुपालन			
	राजस्व	३,१९,३४,९९,०००	३,७५,०००	३,१९,३८,७४,०००
	पूंजी	९०,००,०००	०	९०,००,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	११,४८,५४,१७,०००	०	११,४८,५४,१७,०००
	पूंजी	२३,६४,००,०००	०	२३,६४,००,०००
१६.	मछलीपालन			
	राजस्व	२८,६४,७९,०००	३,००,०००	२८,६७,७९,०००
	पूंजी	४२,००,०००	०	४२,००,०००
१७.	सहकारिता			
	राजस्व	१,२२,८०,०५,०००	१,२५,०००	१,२२,८१,३०,०००
	पूंजी	२२,१८,५०,०००	०	२२,१८,५०,०००
१८.	श्रम			
	राजस्व	५३,६९,९३,०००	२,००,०००	५३,७१,९३,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	१२,८६,८३,२७,०००	५५,००,०००	१२,८७,३८,२७,०००
	पूंजी	२१,००,००,०००	०	२१,००,००,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	३,१४,५३,२८,०००	३०,००,०००	३,१४,८३,२८,०००
	पूंजी	३,९७,६८,४०,०००	०	३,९७,६८,४०,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण			
	राजस्व	२,२१,९८,८५,०००	१,००,०००	२,२१,९९,८५,०००
	पूंजी	२९,७७,००,०००	२,००,०००	२९,७९,००,०००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय			
	राजस्व	८९,११,१६,०००	०	८९,११,१६,०००
	पूंजी	२,४६,९५,९०,०००	०	२,४६,९५,९०,०००
२३.	जल संसाधन			
	राजस्व	५,०४,५२,९३,०००	२०,००,०००	५,०४,७२,९३,०००
	पूंजी	३,६१,८२,५८,०००	५०,००,०००	३,६२,३२,५८,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	४,९२,१३,०८,०००	८,६७,५०,०००	५,००,८०,५८,०००
	पूंजी	१३,७०,९०,००,०००	८,००,००,०००	१३,७८,९०,००,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	१६,४८,३२,०००	३,००,०००	१६,५१,३२,०००
	पूंजी	२,००,०००	०	२,००,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	३८,१२,८९,०००	०	३८,१२,८९,०००
	पूंजी	५,५०,०००	०	५,५०,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	२५,३०,०५,८३,०००	२४,१०,०००	२५,३०,२९,९३,०००
	पूंजी	२३,९२,५०,०००	०	२३,९२,५०,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	४१,७९,०२,०००	१९,४४,०००	४१,९८,४६,०००
	पूंजी	०	०	०
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	३,२६,०९,१८,०००	५२,५७,२२,०००	३,७८,६६,४०,०००
	पूंजी	५०,००,०००	०	५०,००,०००
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	१,६४,९१,६९,०००	६,००,०००	१,६४,९७,६९,०००
	पूंजी	१,७१,८७,००,०००	०	१,७१,८७,००,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	५७,८४,०२,०००	०	५७,८४,०२,०००
	पूंजी	०	०	०
३२. जनसंपर्क	राजस्व	८२,५६,४०,०००	०	८२,५६,४०,०००
	पूंजी	०	०	०
३३. आदिम जाति कल्याण	राजस्व	७,३७,०६,०७,०००	९,००,०००	७,३७,१५,०७,०००
	पूंजी	०	०	०
३४. समाज कल्याण	राजस्व	१,१४,१८,०७,०००	३,००,०००	१,१४,२१,०७,०००
	पूंजी	०	०	०
३५. पुनर्वास	राजस्व	४७,६८,०००	५०,०००	४८,१८,०००
	पूंजी	०	०	०

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
३६. परिवहन	राजस्व	४६,४९,१६,०००	४,००,०००	४६,५३,१६,०००
	पूंजी	५५,००,००,०००	०	५५,००,००,०००
३७. पर्यटन	राजस्व	१५,१८,८१,०००	०	१५,१८,८१,०००
	पूंजी	२७,००,५०,०००	०	२७,००,५०,०००
३८. आयुष	राजस्व	१,५३,०८,०४,०००	०	१,५३,०८,०४,०००
	पूंजी	३,००,००,०००	०	३,००,००,०००
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	६,८७,३६,२४,०००	१,५०,०००	६,८७,३७,७४,०००
	पूंजी	२०,४०,००,०००	०	२०,४०,००,०००
४०. जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	राजस्व	२,७५,५९,०००	५०,०००	२,७६,०९,०००
	पूंजी	१७,४४,२७,०००	०	१७,४४,२७,०००
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	१७,६३,१३,०१,०००	०	१७,६३,१३,०१,०००
	पूंजी	१३,६३,११,७१,०००	१५,००,०००	१३,६३,२६,७१,०००
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूंजी	३,१३,०७,००,०००	०	३,१३,०७,००,०००
	राजस्व	४३,१४,६४,०००	०	४३,१४,६४,०००
४३. खेल और युवक कल्याण	पूंजी	१४,६५,००,०००	०	१४,६५,००,०००
	राजस्व	५,०९,६७,४१,०००	३०,००,०००	५,०९,९७,४१,०००
४४. उच्च शिक्षा	पूंजी	१९,५८,०२,०००	०	१९,५८,०२,०००
	राजस्व	७९,७५,०५,०००	०	७९,७५,०५,०००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	६,८०,१७,९३,०००	१०,००,०००	६,८०,२७,९३,०००
	राजस्व	७९,७५,०५,०००	०	७९,७५,०५,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	
४६. विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	१३,१८,८०,०००	०	१३,१८,८०,०००
	पूँजी	३,२५,००,०००	०	३,२५,००,०००
४७. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	राजस्व	२,१७,५५,२२,०००	०	२,१७,५५,२२,०००
	पूँजी	११,०७,००,०००	०	११,०७,००,०००
४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	२९,३०,७२,०००	०	२९,३०,७२,०००
	पूँजी	६,८८,६६,४४,०००	४०,००,०००	६,८९,०६,४४,०००
४९. अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	४६,१२,६०,०००	१०,०००	४६,१२,७०,०००
५०. बीस सूत्र कार्यान्वयन	राजस्व	३,०३,४८,०००	०	३,०३,४८,०००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१३,३१,०४,०००	२५,०००	१३,३१,२९,०००
५२. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१३,८३,९६,०८,०००	०	१३,८३,९६,०८,०००
	पूँजी	२६,०८,००,०००	०	२६,०८,००,०००
५३. अनुसूचित जाति उपयोगना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	६४,९१,०४,०००	०	६४,९१,०४,०००
	पूँजी	६१,१८,८२,०००	०	६१,१८,८२,०००
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	५०,०६,२४,०००	०	५०,०६,२४,०००
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	१२,७५,२०,२०,०००	१०,००,०००	१२,७५,३०,२०,०००
	पूँजी	३,६०,६२,०००	०	३,६०,६२,०००
५६. ग्रामोद्योग	राजस्व	६९,७१,२४,०००	०	६९,७१,२४,०००
	पूँजी	२,४३,२७,०००	०	२,४३,२७,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	३,५७,२७,१६,०००	०	३,५७,२७,१६,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	७,७२,५८,९४,०००	०	७,७२,५८,९४,०००
		पूंजी	४,२०,००,०००	०	४,२०,००,०००
५९.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	५०,६५,००,०००	०	५०,६५,००,०००
		पूंजी	५७,००,००,०००	०	५७,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	६,९३,००,०००	०	६,९३,००,०००
		पूंजी	१,६०,४८,८३,०००	०	१,६०,४८,८३,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	१,६७,१९,५०,०००	०	१,६७,१९,५०,०००
		पूंजी	५,१६,४२,०५,०००	०	५,१६,४२,०५,०००
६२.	पंचायत	राजस्व	८९,९२,३७,०००	२,००,०००	८९,९४,३७,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	४३,२०,९२,०००	०	४३,२०,९२,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	११,१८,५४,३२,०००	०	११,१८,५४,३२,०००
		पूंजी	९,२१,०९,५१,०००	०	९,२१,०९,५१,०००
६५.	विमानन	राजस्व	१५,३३,१७,०००	०	१५,३३,१७,०००
		पूंजी	१०,००,०००	०	१०,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	२,५८,७५,०८,०००	२०,०००	२,५८,७५,२८,०००
		पूंजी	१३,७०,००,०००	०	१३,७०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व २,९८,०५,६७,००० पूँजी ७३,८६,४०,०००	२,००,००,००० ०	३,००,०५,६७,००० ७३,८६,४०,०००
६८.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व ३१,५९,१४,०००	०	३१,५९,१४,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व ४१,९०,००,००० पूँजी ५५,००,०००	० ०	४१,९०,००,००० ५५,००,०००
७०.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व ३२,७१,०००	०	३२,७१,०००
७१.	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)	राजस्व ३,६५,००,०००	०	३,६५,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व ५०,२१,८६,००० पूँजी ५,८९,००,०००	० ०	५०,२१,८६,००० ५,८९,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व १,९१,८१,१७,००० पूँजी ३,३१,५३,०००	० ०	१,९१,८१,१७,००० ३,३१,५३,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व ३३,६२,४०,३३,००० पूँजी १,८१,६८,००,०००	० ०	३३,६२,४०,३३,००० १,८१,६८,००,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व २९,८६,३८,७१,००० पूँजी १५,००,००,०००	६४,६८,००,००० ०	३०,५१,०६,७१,००० १५,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
७६.	लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	१,५०,००,०००	०	१,५०,००,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	८,०२,६५,५६,०००	१५,००,०००	८,०२,८०,५६,०००
		पूंजी	१३,४३,०९,०००	०	१३,४३,०९,०००
७८.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	१,१५,६३,०१,०००	३,००,०००	१,१५,६६,०१,०००
	योग :	{ राजस्व	३,७२,५३,४८,८७,०००	५९,२१,३५,५८,०००	४,३१,७४,८४,४५,०००
		{ पूंजी	९८,५२,२४,४३,०००	५९,३१,२७,६७,०००	१,५७,८३,५२,१०,०००
	वृहद् योग . .		४,७१,०५,७३,३०,०००	१,१८,५२,६३,२५,०००	५,८९,५८,३६,५५,०००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जाता है, जो वित्तीय वर्ष २०१०-२०११ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख ४ मार्च, २०१०.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.